



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] ,
No. 116]नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 135(अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	श्री रामकृष्ण आश्रम, कायनमुकलम, केरल-690502	(i) स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बाल भवन (अनाथालय और आदिवासी होस्टल)	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के

		(ii) आदिवासी युवकों के लिए निर्मलानंद कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	लिए 1.08 करोड़ रुपए ।
2.	मेडिको पेस्वेरल एसोसिएशन, नं047, पॉटरी रोड, फ्रेजर टाऊन, बंगलोर	विकलांग व्यक्तियों मानसिक रोगों से पैदा होने वाली मानसिक विकलांगता, के साथ पुर्नवास, आत्महत्या बचाव, मानसिक स्वास्थ्य सूचना का प्रसारण, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, देखरेख सेवाएं आदि के लिए भूमि की खरीद	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 1.41 करोड़ रुपए ।
3.	पैरागॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, आई-11/12, पैरागॉन, कॉलोमिनीयम, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई, 400013	झोपड़पट्टियों और फैक्टरी कर्मचारियों के बच्चों के लिए “ मुक्तांगन” बालवाड़ी और विद्यालय परियोजना	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 37. 80 लाख रुपए (आवर्ती व्यय) ।
4.	डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट, मुशीनगूर, पो0आ0वालाकुडी, त्रिचुर जिला, केरला-680316	मानसिक रोगियों के लिए देखभाल गृह	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 25 करोड़ रुपए ।
5.	दी गुड स्मार्टियन 121, मंदाकिनी एन्क्लेव, नई दिल्ली-110019	उच्च माध्यमिक विद्यालय	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ।
6.	महावीर इंटरनेशनल, 6550, मेन कुतुब रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-55	“ द्वार पर डॉक्टर”	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात केवल तीन वर्षों के लिए 2.40 करोड़ रुपए ।
7.	डा0 वेंकटराव दावले मेडिकल फाऊन्डेशन, दावले बिल्डिंग,	परिवार कल्याण एवं टीकाकरण	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007

	पुलिस स्टेशन के समीप, लातूर महाराष्ट्र-413517		और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 1.04 करोड़ रुपए।
8.	श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) तालुक-रहाता, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र-423109	एकीकृत सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा एवं आवश्यक सुविधाएं	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 75.00 करोड़ रुपए।
9.	उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, एम सी डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर (सेन्ट्रल स्कूल के समीप) टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, पो0आ0 बॉक्स नं0 6557, नई दिल्ली-110027	किशोरों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2.70 करोड़ रुपए।
10.	केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सांलुके विहार, पुणे 411048	मातृसेवा (महिलाओं के लिए स्वास्थ्य रखरखाव कार्यक्रम)	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2.70 करोड़ रुपए।
11.	इस्कॉन फुड रिलीफ फाउन्डेशन, हरे कृष्ण लैंड, जुहू, मुम्बई 400049	महाराष्ट्र के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 12.35 करोड़ रुपए।
12.	विस्टा इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उरागपुरा विलेज, बिदादी होबली, रमनग्राम तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक-562109	आंसूओं को पोछे और मुस्कान को जीतो	वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 1.09 करोड़ रुपए

2. यह अधिसूचना सारणी में दर्शाई गई उक्त परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2005-2006, 2006-2007 तथा 2007-2008 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 4/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 135(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sri Ramakrishna Ashrama, Kayanmkulam, Kerala -690 502.	(i) Swami Nirmalananda Memorial Bala Bhavan (Orphanage and Tribal Hostel). (ii) Nirmalananda Computer Training Centre for Tribal Youth.	Rs. 1.08 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
2	Medico Pastoral Association, No.47, Pottery Road, Frazer Town, Bangalore.	Purchase of land for use by handicapped persons with psychiatric disabilities arising from mental illness, rehabilitation, suicide prevention, dissemination of mental health information, training of counsellors, domiciliary care services etc.	Rs.1.41 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
3	Paragon Charitable Trust, I-11/12, Paragon Condominium, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 013.	"Muktangan" Balwadi and school project for children of slum dwellers and factory workers.	Rs. 37.80 lakhs (Recurring expenses only) for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
4.	Divine Charitable Trust, Muringoor, P.O. Chalakudy, Trichur District, Kerala -680 316.	Care home for mental patients.	Rs. 25 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.

5.	The Good Samaritans 121, Mandakini Enclave, New Delhi - 110019.	Senior Secondary School.	Rs. 10 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
6.	Mahavir International, 6550, Main Qutab Road, Nabi Karim, New Delhi 55	"Doctor at Doorstep".	Rs. 2.40 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
7.	Dr. Venkatrao Dawle Medical Foundation, Dawle Building, Near Police Station, Latur, Maharashtra - 413517.	Family welfare and immunization.	Rs. 1.04 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
8	Shri Saibaba Sansthan Trust (Shirdi), Taluk - Rahata, District Ahmednagar, Maharashtra -423109.	Development of integrated socio economical health, education and essential facilities.	Rs. 75.00 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
9	Urivi Vikram Charitable Trust, MCD Shopping Complex, 1 st Floor (Near Central School), Tagore Garden Extension, P.O. Box No. 6557, New Delhi - 110027.	National Centre for Adolescents.	Rs. 2.00 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
10	Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune 411048.	Matruseva (Health maintenance program for women).	Rs. 2.70 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
11	Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400049.	Mid day meal to students in Maharashtra.	Rs. 12.35 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.
12	Vista India Charitable Trust, Uragepura Village, Bidadi Hobli, Ramanagaram Taluk, Bangalore Rural District, Karnataka -562109.	Wipe a tear and win a smile.	Rs. 1.09 crores for financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 i.e for three years only.

2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008 in respect of projects or schemes mentioned in the Table.

[No. 4/2006/F. No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 136(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 नवम्बर 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1140 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल वेलफेयर सोसायटी, एम-143, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली-110048 द्वारा तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में रोटरी ब्लड बैंक बनाने के लिए भवन निर्माण, साजसज्जा, उपस्करों की खरीद की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं० 615 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से और आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल वेलफेयर सोसायटी, एम-143, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, नई दिल्ली-110048 द्वारा तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में रोटरी ब्लड बैंक बनाने के लिए भवन निर्माण, साजसज्जा, उपस्करों की खरीद की परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 385.00 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 5/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 136(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1140(E) dated the 18th November, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Construction of building, furnishing, purchase of equipments for setting up Rotary Blood Bank Project at Tughlakabad Institutional Area, New Delhi, by Rotary District 3010 Social Welfare Society, M-143, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 which was extended further vide notification number S.O.615(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of building, furnishing, purchase of equipments for setting up Rotary Blood Bank Project at Tughlakabad Institutional Area, New Delhi which is being carried out by Rotary District 3010 Social Welfare Society, M-143, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.385.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 5/2006/F. No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 137(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 206 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सिंधवी चैरिटेबल ट्रस्ट, 11, पोन्नप्पा लेन, त्रिपीलिकेन, चेन्नई, तमिलनाडु-600005, द्वारा तमिलनाडु के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 9 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 321 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 07.06.2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 613(अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं० 321 (अ०) के द्वारा अनुमानित लागत को 147.00 लाख रुपये से संशोधित कर 201.00 लाख रुपये कर दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति, का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंधवी चैरिटेबल ट्रस्ट, 11, पोन्नप्पा लेन, त्रिपीलिकेन, चेन्नई, तमिलनाडु-600005, द्वारा तमिलनाडु के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों के संचालन की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 201.00 लाख रुपये में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 6/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 137(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.206(E) dated the 17th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, for Running of Health Camps at Rural areas of all Districts of Tamilnadu by Singhvi Charitable Trust, 11, Ponnappa Lane, Triplicane, Chennai, TAMIL NADU-600005, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.321(E) dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.613(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas by notification number S.O.321(E) dated the 11th May, 1999 the estimated cost was amended from Rs.147.00 lakhs to Rs.201.00 lakhs ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Running of Health Camps at Rural areas of all Districts of Tamilnadu which is being carried out by Singhvi Charitable Trust, 11, Ponnappa Lane, Triplicane, Chennai, TAMIL NADU-600005, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.201.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 6/2006/F. No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 138(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 681 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने आम्बा घर, 406/7, डीप सागर बिल्डिंग, लाईट हाउस रोड, उत्तन, भेयंडर धाणे, बम्बई-401106 द्वारा (क) भूमि की खरीद (ख) बेसहारा लड़कियों के लिए घर निर्माण (ग) उच्च स्कूल और तकनीकी संस्था के निर्माण और (घ) परियोजना को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम्बा घर, 406/7, डीप सागर बिल्डिंग, लाईट हाउस रोड, उत्तन, भेयंडर, थाने, बम्बई-401106 द्वारा चलाई जा रही (क) भूमि की खरीद (ख) बेसहारा लड़कियों के लिए घर निर्माण (ग) उच्च स्कूल और तकनीकी संस्था के निर्माण और (घ) परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 1157.10 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 7/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 138(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.681(E) dated the 13th June, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for (a) Purchase of land (b) Construction of home for destitute girls (c) Construction of High School and technical institute and (d) running of the project by AMCHA GHAR, 406/7, Deep Sagar Building, Light House Road, Uttan, Bhayandar, Thane, Bombay-401106, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for (a) Purchase of land (b) Construction of home for destitute girls (c) Construction of High School and technical institute and (d) running of the project which is being carried out by AMCHA GHAR, 406/7, Deep Sagar Building, Light House Road, Uttan, Bhayandar, Thane, Bombay-401106, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.1157.10 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 7/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 139(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 10 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ल्यूपिन ह्यूमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, 159, सी एस टी रोड, कलिना रोड, सांताक्रुज(ई), मुम्बई-400098 द्वारा भरतपुर(राजस्थान) और रायसेन(मध्य प्रदेश) में एकीकृत ग्रामीण विकास की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 356 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम की छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल्यूपिन ह्यूमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, 159, सी एस टी रोड, कलिना रोड, सांताक्रुज(ई), मुम्बई-400098 द्वारा चलाई जा रही भरतपुर(राजस्थान) और रायसेन(मध्य प्रदेश) में एकीकृत ग्रामीण विकास की परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात् 547.35 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 8/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 139(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.10(E) dated the 4th January, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to, section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Integrated Rural Development at Bharatpur (Rajasthan) and Raisen (Madhya Pradesh) by Lupin Human Welfare and Research Foundation, 159, CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400098 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 which was extended further vide notification number S.O.356(E) dated the 31st March, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Integrated Rural Development at Bharatpur (Rajasthan) and Raisen (Madhya Pradesh) which is being carried out by Lupin Human Welfare and Research Foundation, 159, CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400098, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.547.35 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006,

[No. 8/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 140(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती समर्थबेन चुनिलाल और शेठ डोसामाई माधव जी सार्वजनिक ट्रस्ट, क्रोजरिया, जिला मेहसाणा, तालुक-विजापुर, गुजरात द्वारा क्रोजरिया जिला मेहसाणा, गुजरात में हस्पताल के निर्माण, साज-सज्जा, उपकरणों और चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 101 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1113 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था; और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती समर्थबेन चुनिलाल और शेठ डोसामाई माधव जी सार्वजनिक ट्रस्ट, क्रोजरिया, जिला मेहसाणा, तालुक-विजापुर, गुजरात द्वारा चलाई जा रही

क्रोजरिया जिला मेहसाणा, गुजरात में हस्पताल के निर्माण, साज-सज्जा, उपकरणों, और चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 59.00 लाख रुपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 9/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 140(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.399(E) dated the 6th June, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Construction, furnishing equipments and running of hospital at Crozaria, Distt. Mehsana, Gujarat by Smt. Samarathben Chunilal and Sheth Dosabhai Madhavji Sarvajanik Trust, Crozaria, Distt. Mehsana, Taluk-Vijapur, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.101(E) dated the 11th February, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.1113(E) dated the 24th October, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction, furnishing equipments and running of hospital at Crozaria, Distt. Mehsana, Gujarat which is being carried out by Smt. Samarathben Chunilal and Sheth Dosabhai Madhavji Sarvajanik Trust, Crozaria, Distt. Mehsana, Taluk-Vijapur, Gujarat, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.59.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 9/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 141(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० सी० आ० 973 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कैलाश चेरिटेबल ट्रस्ट, सी-320, सेक्टर-9, नोएडा-201301 द्वारा मुफ्त चिकित्सा सहायता सेवाओं को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए

एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 13 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं०सां०आ० 212 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं०सां०आ० 982 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 16 मार्च, 1988 की अधिसूचना सं० सां० आ० 212 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 40.00 लाख रुपये से 75.00 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना और स्कीम की नौ वर्षों से अधिक चलने की संभवना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलाश चेरिटेबल ट्रस्ट, सी-320, सेक्टर-91, नोएडा-201301 द्वारा चलाई जा रही मुफ्त चिकित्सा सहायता सेवाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 75.00 लाख रुपये में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 10/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 141(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.973(E) dated the 14th December, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Running of free medical aid services at NOIDA by Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-91, NOIDA-201301, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.212(E) dated the 16th March, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 and which was extended further vide notification number S.O.982(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas by notification number S.O.212(E) dated the 16th March, 1998 the estimated cost was amended from Rs.40.00 lakhs to Rs.75.00 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Running of free medical aid services at NOIDA which is being carried out by Kailash Charitable Trust, C-320, Sector-91, NOIDA-201301, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.75.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 10/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 142(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 832 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ई एन टी चेरिटेबल ट्रस्ट, 4, फिल्का, दफ्तरी रोड, मुम्बई-400097 द्वारा बांदागरी, मलाड ईस्ट, मुम्बई में उपस्करों की खरीद, स्कूल के लिए भवन निर्माण और कानों की देखभाल के लिए केन्द्र की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था और जिसे दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 564 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम की छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई एन टी चेरिटेबल ट्रस्ट, 4, फिल्का, दफ्तरी रोड, मुम्बई-400097 द्वारा चलाई जा रही बांदागरी, मलाड ईस्ट, मुम्बई में उपस्करों की खरीद, स्कूल के लिए भवन निर्माण और कानों की देखभाल की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 375.00 लाख रुपये में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 11/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 142(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.832(E) dated the 18th September, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Purchase of equipments, construction of building for school and center for the care of ear at Bandangari, Malad East, Mumbai by ENT Charitable Trust, 4, Filka, Daftary Road, Mumbai-400097, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 and which was extended further vide notification number S.O.564(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Purchase of equipments, construction of building for school and center for the care of ear at Bandangari, Malad East, Mumbai which is being carried out by ENT Charitable Trust, 4, Filka, Daftary Road, Mumbai-400097, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.375.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of one year commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 11/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 143(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20, सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 901 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री चन्द्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, अमरकंटक, जिला शहडोल (म०प्र०) द्वारा अमरकंटक जिला शहडोल (म०प्र०) में श्री चन्द्राचार्य चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र के कैंसर रोगियों, त्वचा आदि रोगों के लिए उपस्करों, दैन, रोगी वाहन की खरीद, साजसज्जा और चिकित्सा सेवाओं को चलाने और जड़ी-बूटी और आयुर्वेदिक दवाईयां के अनुसंधान की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 14 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चन्द्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, अमरकंटक, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) द्वारा चलाई जा रही अमरकंटक जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) में श्री चन्द्राचार्य चेरिटेबल हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र के कैंसर रोगियों, त्वचा आदि रोगों के लिए उपस्करों, दैन, रोगी वाहन की खरीद, साजसज्जा और चिकित्सा सेवाओं को चलाने और जड़ी-बूटी और आयुर्वेदिक दवाईयां के अनुसंधान की परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 227.72 लाख रुपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 12/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S.O. 143(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.901(E) dated the 20th September, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, for Purchase of equipments, van, ambulance, furnishing and running of medical services and research in herbal and ayurvedic medicines, diseases such as cancer, skin diseases etc. of Shri Chandracharya Charitable Hospital & Research Centre at Amarkantak, District Shahdol (Madhya Pradesh) by Shri Chandracharya Dharmarth Chikitsalaya Trust, Amarkantak, District Shahdol (Madhya Pradesh), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Purchase of equipments, van, ambulance, furnishing and running of medical services and research in herbal and ayurvedic medicines, diseases such as cancer, skin diseases etc. of Shri Chandracharya Charitable Hospital & Research Centre at Amarkantak, District Shahdol (Madhya Pradesh) which is being carried out by Shri Chandracharya Dharmarth Chikitsalaya Trust, Amarkantak, District Shahdol (Madhya Pradesh), without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.227.72 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of one year commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 12/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 144(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भास्त सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18, अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1045 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अरावली विकास मंडल, 302, मैत्री कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, गोलंगी मिल रोड, परेल, मुम्बई 400012, द्वारा अरावली चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, अरावली, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए आवसीय क्वार्टर भवन निर्माण, उपकरणों/यंत्रों की खरीद, साजसज्जा की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले एक वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरावली विकास मंडल, 302, मैत्री को -ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, गोलंगी मिल रोड, परेल, मुम्बई 400012 द्वारा चलाई जा रही अरावली चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, अरावली जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए आवसीय क्वार्टर भवन निर्माण, उपकरणों/यंत्रों की खरीद, साजसज्जा की परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 548.90 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 13/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 144(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1045(E) dated the 18th October, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for Construction of building, residential quarters for staff, purchase of equipments/machines, furnishing of Aravali Medical and Research Centre at Aravali, District Sindhudurg, Maharashtra by Aravali Vikas Mandal, 302, Maitri Cooperative Housing Society, Golangi Mill Road, Parel, Mumbai-400012, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of building, residential quarters for staff, purchase of equipments/machines, furnishing of Aravali Medical and Research Centre at Aravali, District Sindhidurg, Maharashtra which is being carried out by Aravali Vikas Mandal, 302, Maitri Cooperative Housing Society, Golangi Mill Road, Parel, Mumbai-400012, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.548.90 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of one year commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 13/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 145(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० सा० आ० 232 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एक्शन फॉर आटिस्म, टी 370 एफ, चिराग दिल्ली गॉव, नई दिल्ली-110017 द्वारा आटिस्टिक और बहुविकलांग बच्चों के लिए विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण को कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 5.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 1.10 करोड़ रुपये से 6.10 करोड़ रुपये तक संशोधित करने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एक्शन फॉर आटिस्म 370 एफ, चिराग दिल्ली गॉव, नई दिल्ली-110017 द्वारा चलाई जा रही आटिस्टिक और बहुविकलांग बच्चों के लिए विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भवन परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2005-2006 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 24 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० सा० आ० 232 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 7 के सम्मुख कॉलम (4) में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाले लागत की अधिकतम राशि से संबंधित, अक्षर, अंक तथा शब्द “1.10 करोड़ रुपये” के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द “5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 6.10 करोड़ रुपये” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 14/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 145(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.232(E) dated the 24th February, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for construction of school/vocational training center Building for Autistic and Multiple Handicapped Children by Action for Autism, T 370 F, Chirag Dilli Gaon, New Delhi-110017, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs.1.10 crore to Rs.6.10 crores including a corpus fund of rupees five crores;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

- (a) hereby specifies the scheme or project for construction of school/vocational training center Building for Autistic and Multiple Handicapped Children, which is being carried out by Action for Autism, T 370 F, Chirag Dilli Gaon, New Delhi-110017 as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006; and
- (b) further amends the said notification number S.O.232(E) dated the 24th February, 2004, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 7, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC for the letters, figures and word "Rs.1.10 crores," the letters figures and words "Rs.6.10 crores including a corpus fund of Rs. 5.00 crores" shall be substituted.

[No. 14/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 146(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 388 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्राई (चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू डी०डी०ए०स्लम विंग बारात घर, बापू पार्क, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण भारत में चलाई जा रही क्राई समर्थित विकास की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 24 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक पांच जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं० सां०आ०सं० 634 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और जिसे बाद

में दिनांक तेरह जून, 2003 की अधिसूचना सं० सां०आ०सं० 692 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या सां०आ० 634(अ०) के द्वारा अनुमानित लागत 1650.00 लाख रुपए से 2773.00 लाख रुपए परिवर्तित की गई थी और जो इसके बाद दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या सां०आ० 692(अ०) के द्वारा 2773.00 लाख रुपए से 5373.00 लाख रुपए बढ़ा दी गई थी ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत परियोजना लागत 5373.00 लाख रुपए से 5873.00 लाख रुपए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा

(क) क्राई (चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू) डी०डी०ए०स्लम विंग बारात घर, बापू पार्क, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण भारत में चलाई जा रही क्राई समर्थित विकास परियोजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है एवं,

(ख) दिनांक 19 मई 1997 की उक्त अधिसूचना सं० सां०आ०388(अ०) को निम्नलिखित प्रभावों से और संशोधित करती है। नामतः

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 24 के सामने सारणी में “ धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्त लागत की अधिकतम राशि” संबंधी कालम (4) में ‘5373.00 लाख रुपए’ अक्षरों, अंकों एवं शब्दों के लिए ‘ 5873.00 लाख रुपए’ अक्षर, अंक एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 15/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 146(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 24, for CRY Supported Development project all over India by CRY (Child Relief and You), DDA Slum Wing Barat Ghar, Bapu Park, Kotla Mubarakpur, New Delhi, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.634(E) dated the 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.692(E) dated the 13th June, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O.634(E) dated the 5th July, 2000 the estimated cost was enhanced from Rs.1650.00 lakhs to Rs.2773.00 lakhs and which was further enhanced vide notification No.S.O. 692(E) dated the 13th June, 2003 from Rs.2773.00 lakhs to Rs.5373.00 lakhs;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.5373.00 lakhs to Rs.5873.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

(a) hereby specifies the scheme or project for CRY supported Development Project all over India, which is being carried out by CRY (Child Relief and you), DDA Slum wing Barat Char, Bapu Park, Kotla Mubarak Pur, New Delhi, as an eligible project or scheme; and

(b) further amends the said notification number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 24, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC for the letters, figures and word "Rs.5373.00 lakhs," the letters, figures and word Rs.5873.00-lakhs" shall be substituted.

[No. 15/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 147(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1084 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रयास जुवेनाइल सेन्टर, फ्लैट नं० 1-X, ब्लॉक नं० एफ, जहांगीरपुरी, दिल्ली-110033 द्वारा दिल्ली में प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर दिल्ली की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना यह स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर, फ्लैट नं० 1-X, ब्लॉक नं० एफ, जहांगीरपुरी, दिल्ली-110033 द्वारा चलाई जा रही प्रयास जुवेनाइल एड सेन्टर दिल्ली परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् मात्र 324.68 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 16/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 147(E)—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1084(E) dated the 11th October, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for Prayas Juvenile Aid Centre, Delhi, by Prayas Juvenile Aid Centre, Flat No.1-X, Block No.F, Jahangirpuri, Delhi-110033, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Prayas Juvenile Aid Centre, Delhi which is being carried out by Prayas Juvenile Aid Centre, Flat No.1-X, Block No.F, Jahangirpuri, Delhi-110033, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.324.68 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 16/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 148(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 180 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कैसर पेशेंट एड एसोसिएशन, 5, मल्होत्रा हाउस, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा चलाई जा रही (क), महाराष्ट्र में मुम्बई स्थित कैसर निदान यूनिट के भवन उपकरणों और साज सज्जा के नवीकरण (ख) महाराष्ट्र के अहमदनगर, नांदेड, बुलढाणा, परमणी अकोला, अमरावती, यवतमाल, जलगांव, धुले, बीड और मुम्बई में स्थित कैसर जागरूकता, शिक्षा और निदान कैंपों को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० सं० 638 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और जिसे आद में दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1280 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस

समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन, 5, मल्होत्रा हाउस, फोर्ट मुम्बई-400001 द्वारा चलाई जा रही (क) मुम्बई, महाराष्ट्र स्थित कैंसर निदान यूनिट के भवन उपकरणों और साज सज्जा के नवीकरण (ख) महाराष्ट्र के अहमदनगर, नांदेड, बुलढाणा, परभणी, अकोला, अमरावती, यवतमाल, जलगांव, धुले, बीड और मुम्बई में स्थित कैंसर जागरूकता, शिक्षा और निदान कैंपों को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत में बिना कोई परिवर्तन के अर्थात् 365.67 लाख रूपए पर वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 17/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 148(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.180(E) dated the 10th March, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for (a) Renovation of building, equipments and furnishing of Cancer Detection Unit at Mumbai, Maharashtra (b) Cancer Awareness, Education and Detection Camps at Ahmednagar, Nanded, Buldana, Parbhani, Akola, Amravati, Yavatmal, Jalgaon, Dhule, Beed and Mumbai, Maharashtra by Cancer Patients Aid Association, 5, Malhotra House, Fort, Mumbai-400001, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.638(E) dated the 5th July, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.1280(E) dated the 9th December, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for (a) Renovation of building, equipments and furnishing of Cancer Detection Unit at Mumbai, Maharashtra (b) Cancer Awareness, Education and Detection Camps at Ahmednagar, Nanded, Buldana, Parbhani, Akola, Amravati, Yavatmal, Jalgaon, Dhule, Beed and Mumbai, Maharashtra which is being carried out by Cancer Patients Aid Association, 5, Malhotra House, Fort, Mumbai-400001, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.365.67 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 17/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 149(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27, अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 915 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रथम दिल्ली एजुकेशन इनीशिएटिव, तृतीय मंजिल, आई सी०आई०सी आई लि०, एन०बी०सी०सी० प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 द्वारा दिल्ली में प्रथम दिल्ली शिक्षा प्रयास की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 15 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम दिल्ली एजुकेशन इनीशिएटिव, तृतीय मंजिल, आई सी०आई०सी आई लि०, एन०बी०सी०सी० प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 द्वारा चलाई जा रही दिल्ली में प्रथम दिल्ली शिक्षा प्रयास की परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 1229.38 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 18/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 149(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.915(E) dated the 27th August, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 15, for Pratham Delhi Education Initiative at Delhi by Pratham Delhi Education Initiative, 3rd Floor, ICICI Ltd., NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi-110 003, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Pratham Delhi Education Initiative at Delhi which is being carried out by Pratham Delhi Education Initiative, 3rd Floor, ICICI Ltd., NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi-110 003, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.1229.38 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 18/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 150(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19, मई, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 388 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्पास्टिक्स सोसायटी तमिलनाडु, विशेष शिक्षा केन्द्र, टी०टी०टी०आई० के सामने, तारामणि रोड, चेन्नई द्वारा तमिलनाडु में मंद बुद्धि शहरी बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केन्द्र के लिए उपकरणों, साज-सज्जा और चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 15 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1146 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 969 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 969 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 65.67 लाख रुपये से 126.52 लाख रूपए तक बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्पास्टिक्स सोसायटी तमिलनाडु, विशेष शिक्षा केन्द्र, टी०टी०टी०आई० के सामने, तारामणि रोड, चेन्नई द्वारा चलाई जा रही तमिलनाडु में मंद बुद्धि शहरी बच्चों के लिए विशेष शिक्षा केन्द्र के लिए उपकरणों, साज-सज्जा और चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 126.52 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 19/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 150(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 15, for Equipment, furnishing and running of special education centers for spastic children at urban centers of SPASTN in Tamilnadu by The Spastics Society of Tamil Nadu, Centre for Special Education, Opposite T.T.T.I., Taramani Road, CHENNAI, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.1146(E) dated the 18th November, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.969(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas by notification number S.O.969(E) dated the 10th September, 2002 the estimated cost was enhanced from Rs.65.67 lakhs to Rs.126.52 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Equipment, furnishing and running of special education centers for spastic children at urban centers of SPASTN in Tamilnadu which is being carried out by The Spastics Society of Tamil Nadu, Centre for Special Education, Opposite T.T.T.I., Taramani Road, CHENNAI, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.126.52 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 19/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 151(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं० सां० आ० 602 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने युसुफ महारैली सेन्टर, नेशनल हाउस, 6 तुल्लोच रोड, अपोलो बन्दर, बम्बई-400039 द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वाटरशेड विकास के संवर्धन हेतु और रायगढ़ जिले के पानवेल और पेन तालुको में गांवों के एकीकृत विकास परियोजना को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 7 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० सं० 415(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों

की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और बाद में दिनांक छब्बीस मई, 2000 की अधिसूचना सं० सां०आ०सां० 505(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक दस सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां०आ० 984(अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युसुफ महारेली सेन्टर, नेशनल हाउस, 6 तुल्लोच रोड, अपोलो बन्दर, बम्बई-400039 द्वारा चलाई जा रही महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में वाटरशेड विकास के संवर्धन हेतु और रायगढ़ जिले के पानवेल और पेन तालुको में गांवों के एकीकृत विकास की परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 322.50 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 20/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 151(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Promotion of watershed development in Konkan region and integrated development of villages in Panvel and Pen talukas of District Raigad, Maharashtra by Yusuf Meharally Centre, National House, 6, Tulloch Road, Appollo Bunder, Bombay-400039, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995, which was extended further vide notification number S.O.415(E) dated the 7th June, 1996 for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.505(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.984(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Promotion of watershed development in Konkan region and integrated development of villages in Panvel and Pen talukas of District Raigad, Maharashtra which is being carried out by Yusuf Meharally Centre, National House, 6, Tulloch Road, Appollo Bunder, Bombay-400039, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs. 322.50 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 20/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 152(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने महावीर हार्ट रिसर्च फाऊंडेशन, अवन्ती अपार्टमेन्ट्स, गांधी मार्केट के पीछे, सिओन(पूर्वी) मुम्बई-400020 द्वारा (क) जांच - परीक्षण, निवारण अनुसंधान और शिक्षण (ख) दिल के रोगियों का निदान, ईलाज और आपरेशन;

(ग) महाराष्ट्र में मुम्बई स्थित अतिथि गृह के रख-रखाव की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं० 18 (अ०)

द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक तेरह जून, 2003 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 686 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर हार्ट रिसर्च फाऊंडेशन, अवन्ती अपार्टमेन्ट्स, गांधी मार्केट के पीछे, सिओन(पूर्वी) मुम्बई-400020 द्वारा चलाई जा रही (क) जांच - परीक्षण, निवारण अनुसंधान और शिक्षण (ख) दिल के रोगियों का निदान, ईलाज और आपरेशन; (ग) महाराष्ट्र में मुम्बई स्थित अतिथि गृह के रख-रखाव की परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 315.85 लाख रुपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 21/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 152(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for (a) Detection, Prevention Research and Education; (b) Diagnosis, curing and operation to Heart patients; (c) Maintaining of Atithi Griha at Mumbai in Maharashtra by Mahavir Heart Research Foundation, Avanti Apartments, Behind Gandhi Market, Sion (East), Mumbai-400020, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.18(E) dated the 4th January 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.686(E) dated the 13th June, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for (a) Detection, Prevention Research and Education; (b) Diagnosis, curing and operation to Heart patients; (c) Maintaining of Atithi Griha at Mumbai in Maharashtra which is being carried out by Mahavir Heart Research Foundation, Avanti Apartments, Behind Gandhi Market, Sion (East), Mumbai-400020, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.315.85 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 21/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 153(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने रायपुर, चेकेला, अहमदाबाद- I में विकलांगों के लिए पोलियो फाउन्डेशन शाह चिम्नलाल छोटेलाल लोखंडवाला चैरीटेबल ट्रस्ट अस्पताल द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में पोलियो अस्पताल चलाने और उपस्कर की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 324 (अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक सात जून, 2002 की अधिसूचना सं० 614 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 11.05. 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 324 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 63.15 लाख रुपए से 71.50 रुपए तक बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 71.50 लाख रुपये से 151.35 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) रायपुर, चेकेला, अहमदाबाद- I में विकलांगों के लिए पोलियो फाउन्डेशन शाह चिम्नलाल छोटेलाल लोखंडवाला चैरीटेबल ट्रस्ट अस्पताल द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में चलाई जा रही पोलियो अस्पताल चलाने और उपस्कर की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2005-2006 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 8 के सम्मुख कॉलम (4) में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाले लागत की अधिकतम राशि से संबंधित , अक्षर अंक तथा शब्दों “ 71.50 लाख रुपये” के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्दों “ 151.35 लाख रुपये” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 22/2006/फा. सं. एन.सा.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 153(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.399(E) dated the 06th June, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Equipment and running of Polio Hospital at Ahmedabad, Gujarat by Polio Foundation Shah Chimanlal Chhotalal Lokhandwala Charitable Trust Hospital for the Handicapped, Raipur, Chekela, Ahmedabad-1 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.324(E) dated the 11th May, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.614(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas by notification number S.O.324(E) dated the 11th May, 1999 the estimated cost was enhanced from Rs.63.15 lakhs to Rs.71.5 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs.71.50 lakhs to Rs.151.35 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

(a) hereby specifies the scheme or project for Equipment and running of Polio Hospital at Ahmedabad, Gujarat, which is being carried out by Polio Foundation Shah Chimanlal Chhotalal Lokhandwala Charitable Trust Hospital for the Handicapped, Raipur, Chekela, Ahmedabad-1, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006; and

(b) further amends the said notification number S.O.399(E) dated the 6th June, 1996, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.71.5 lakhs", the letters, figures and words "Rs.151.35 lakhs" shall be substituted.

[No. 22/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 154(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सं० 0 आ० 915 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारत सेवाश्रम संघ, 211 रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019 द्वारा जमशेदपुर, पुरूलिया, वाराणसी, दिल्ली, रामेश्वरम, गंगासागर, और तारापीठ में मोबाइल चेरीटेबल डिस्पेन्सरी और चिकित्सा सहायता देने को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 9 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सेवाश्रम संघ, 211 रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019 द्वारा जमशेदपुर, पुरूलिया, वाराणसी, दिल्ली, रामेश्वरम, गंगासागर, और तारापीठ में चलाई जा रही मोबाइल चेरीटेबल डिस्पेन्सरी और चिकित्सा सहायता देने के लिए परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 126.00 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 23/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 154(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 15(E) dated the 27th August, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, for Mobile Charitable Dispensary & Medical Aid at Kolkata, Jamshedpur, Purulia, Varanasi, Delhi, Rameshwaram, Gangasagar & Tarrapith by Bharat Sevashram Sangh, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata-700019, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Mobile Charitable Dispensary & Medical Aid at Kolkata, Jamshedpur, Purulia, Varanasi, Delhi, Rameshwaram, Gangasagar & Tarrapith which is being carried out by Bharat Sevashram Sangh, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata-700019, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.126.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 23/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 155(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 308 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भ्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंघरोट, जिला -बड़ोदा, गुजरात द्वारा सिंघरोट, वडोदरा, गुजरात में कोढ़ से रोगमुक्त मरीजों के लिए पुनर्वास/कल्याण गतिविधियों को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 4 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक सात जून, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 611 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को कार्पस निधि के रूप में 400.00 लाख रूपए से 1000.00 लाख रूपए तक कार्पस निधि के रूप में और कार्पस निधि के तहत संग्रहित पहले की राशि को 1000 लाख रूपए के इस अनुमोदन के विरुद्ध लिया जाएगा तक बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) श्रम मंदिर ट्रस्ट, सिंधरोट, जिला - बड़ौदा, गुजरात द्वारा सिंधरोट, वडोदरा, गुजरात में चलाई जा रही कोढ़ से रोगमुक्त मरीजों के लिए पुनर्वास/कल्याण गतिविधियों को चलाने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2005-06 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; और

(ख) दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सं० आ० 308 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 8 के सम्मुख कॉलम (4) में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाले लागत की अधिकतम राशि से संबंधित, अक्षर अंक तथा शब्दों “ कार्पस निधि के रूप में 400.00 लाख रुपये” के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्दों “ कार्पस निधि के रूप में 1000.00 लाख रुपये” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 24/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 155(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.308(E) dated the 11th May, 1999, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for Running of Rehabilitation/Welfare activities for leprosy cured patients at Sindhrot, Vadodara, Gujarat by Shram Mandir Trust, Sindhrot, District-Baroda, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.611(E) dated the 7th June, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs.400.00 lakhs as corpus fund to Rs.1000.00 lakhs as corpus fund alongwith allowing of the amount already collected under the corpus fund to be taken against this approval of Rs.1000 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

(a) hereby specifies the scheme or project for Running of Rehabilitation/Welfare activities for leprosy cured patients at Sindhrot, Vadodara, Gujarat, which is being carried out by Shram Mandir Trust, Sindhrot, District-Baroda, Gujarat as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006; and

(b) further amends the said notification number S.O.308(E) dated the 11th May, 1999, to the following effect, namely :-

307 42/06-5

In the said notification, in the Table against serial number 4, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.400.00 lakhs as corpus fund”, the letters figures and words “Rs.1000.00 lakhs as corpus fund” shall be substituted..

[No. 24/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 156(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 857 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारत सेवाश्रम संघ, 211 रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019 द्वारा जमशेदपुर, पुरुरिया, रानीबंघ, दोलेरा, गंगासागर, घसकोल, लमडिंग और डीडोपारा में कल्याण परियोजनाएं चलाने के लिए कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 14 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सेवाश्रम संघ, 211 रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019 द्वारा जमशेदपुर, पुरुरिया, रानीबंघ, दोलेरा, गंगासागर, घसकोल, लमडिंग और डीडोपारा में चलाई जा रही कल्याण परियोजनाओं को चलाने के लिए परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 84.90 लाख रुपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 25/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 156(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.857(E) dated the 14th August, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, for Running of Welfare Projects at Jamshedpur, Pukuria, Ranibandh, Dolera, Gangasagar, Ghaskol, Lumding and Dediapara by Bharat Sevashram Sangh, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata-700019, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project Running of Welfare Projects at Jamshedpur, Pukuria, Ranibandh, Dolera, Gangasagar, Ghaskol, Lumding and Dediapara which is being carried out by Bharat Sevashram Sangh, 211, Rash Behari Avenue, Kolkata-700019, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.84.90 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 25/2006.F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 157(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्वष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 333 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेवा मंदिर, ओल्ड फतेहपुर, उदयपुर-313004 (राजस्थान) द्वारा ग्रामीण निर्धनों विशेष रूप से जनजातियों के उत्थान के लिए व्यापक ग्रामीण विकास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा

रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा मंदिर, ओल्ड फतेहपुर, उदयपुर-313004 (राजस्थान) द्वारा ग्रामीण निर्धनों विशेष रूप से जनजातियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही व्यापक ग्रामीण विकास की परियोजना अथवा स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 200.00 रूपए की कार्पस निधि सहित 500.00 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 26/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 157(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.333(E) dated the 28th March, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to, section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Comprehensive Rural Development project for upliftment of the rural poor especially tribal by Seva Mandir, Old Fatehpur, Udaipur-313004 (Rajasthan), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Comprehensive Rural Development project for upliftment of the rural poor especially tribal which is being carried out by Seva Mandir, Old Fatehpur, Udaipur-313004 (Rajasthan), without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.500.00 lakhs including a corpus fund of Rs.200.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 26/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2006

का.आ. 158(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 232 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार लकुलिश इंटरनेशनल फेलोशिपस इनलाईटमेन्ट(एल आई एफ ई) मिशन, ब्लॉक ए, दूसरी मंजिल, आर बी जी काम्पलेक्स, बाहुचार्जी रोड, करेलिबाग, वडोडरा-390018 द्वारा 76 बिस्तरों वाले बहु विशेषज्ञ हस्पताल निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 4 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम की दो वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लकुलिश इंटरनेशनल फेलोशिपस इनलाईटमेन्ट(एल आई एफ ई) मिशन, ब्लॉक ए, दूसरी मंजिल, आर बी जी काम्पलेक्स, बाहुचार्जी रोड, करेलिबाग, वडोडरा-390018 द्वारा चलाई जा रही 76 बिस्तरों वाले बहु विशेषज्ञता हस्पताल के निर्माण की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित अनुमानित लागत अर्थात् 280.63 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 27/2006/फा. सं. एन.सी.-270/358/2005]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2006

S. O. 158(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.232(E) dated the 24th February, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4, for Construction of 76 Bed Multi Speciality Hospital by Lakulish International Fellowship's Enlightenment (LIFE) Mission, Block A, Second Floor, RBG Complex, Bahucharaji Road, Karelilbag, Vadodara-390018, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of 76 Bed Multi Speciality Hospital which is being carried out by Lakulish International Fellowship's Enlightenment (LIFE) Mission, Block A, Second Floor, RBG Complex, Bahucharaji Road, Karelilbag, Vadodara-390018, without any change in the approved estimated cost i.e. Rs.260.63 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2005-2006.

[No. 27/2006/F.No. NC-270/358/2005]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)